

Aditya Vision Limited



CIN: L32109BR1999PLC008783 | GSTIN: 10AAECA0801E1ZS A 35E Listed Company

Date- July 31, 2024

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai-400 001

SCRIP Code: 540205

Sub: Newspaper advertisement pertaining to Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2024

Dear Sir/Mam

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, please find enclosed herewith copies of the newspaper advertisement pertaining to Standalone Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter ended June 30, 2024.

The advertisement was published in Economic Times (English) and Aj (Hindi) newspapers on July 31, 2024.

This is for your information and record.

Thanking you

Yours faithfully

For Aditya Vision Limited

Akanksha Arya **Company Secretary**







UltraTech may Rise Higher with **India Cements Under its Belt**

Analysts feel the deal is a a bit expensive, but believe in its long-term benefits

ET ANALYSIS

Rajesh N Naidu

ET Intelligence Group: Ultra-Tech Cement's acquisition of a controlling stake in Chennai headquartered India Cements will not only help in staying ahead in the highly competitive sector but also delay efforts of the Adani group to catch up with it in the short to medium

The latest acquisition by the country's largest cement maker comes at a time when expanding organically has become expensive both in terms of cost and time.

While analysts consider the deal a bit expensive when compared with the recent transactions in the sector, they believe in its long-term benefits. Apart from the expensive valuation, there is another concern in the short-term about the cost Ultra-Tech would incur in making India Cements' assets more profitable through cost efficiency.

According to Nomura Financial Advisory and Securities (India). Ultratech may have to invest at least ₹1,000 crore to make old cement assets of India Cements cost-efficient and integrate them in its core operations. According to the brokerage, In-

Concrete Corner PAN INDIA CAPACITY SHARE (%) FY26E SOUTH INDIA CAPACITY SHARE (%) UltraTech 27 UltraTech 25 Adani Cement 15 Adani Cement 10 Shree Cement 10 Ramco Cement 10--- Dalmia Bharat 8 Chettinad Cement 7-Others 36 Others 41-

dia Cements' operating cost to manufacture a tonne of cement was ₹5,306 in FY24 compared with the industry average of ₹4,608. Also, the average earnings before

interest, tax,

depreciation,

and amortisa-

tion (ebitda)

rated by India

Cements has

fallen sharply

over the past fi-

ve years to ₹105

in FY24 from

The latest acquisition comes at a time when organically has become expensive both in terms of cost and

₹516 in FY20. Considering these factors, the valuation of the deal looks to be on a higher

According to Jefferies India's estimates, the deal assigns an enterprise value (EV) of \$110 per tonnes for 14.5 million ton-

nes (MT) capacity of India Cements compared with \$85 per tonne offered by Ambuja Cements while acquiring Telangana based Penna Cement's 14 MT capacity in June. To be sure, the Adani group acquired assets of Ambuja and ACC in 2022 in a bid to become a significant player in the country's ce-

In the long-term, though, UltraTech's latest acquisition serves a larger purpose. It not only provides the company presence in Tamil Nadu and Telangana apart from Andhra Pradesh but increases its capacity share to close to 25% from 11% in the

south region at present. In addition, according to Nomura, UltraTech has also acquired 1.2 billion tonnes (BT) limestone reserves, a major raw material in the southern reIndia Cements has 50 MW captive power plants in Tamil Nadu and Telangana and a 20 MW captive power plant in Rajasthan. It also operates a gas-based power plant of 26.25 MW capacity in Tamil Nadu. The company has a presence in the shipping sector with two handymax vessels. Besides, the company owns coal mines in Indonesia.

The company's closest peer Ambuja Cements has plans to achieve a capacity target of 140 MT by FY28 from 89MT at present through inorganic and organic routes. With the acquisition of Penna Cement, Ambuja Cements will be able to increase share of low-cost sea logistics and become a dominant player in coastal distribution of cement. It is estimated that these cost-saving measures are likely to reduce the company's cost in manufacturing a tonne of cement by ₹530 by FY28.

UltraTech's latest acquisition will take the company's total capacity to 207 MT by 2027 from around 155 MT at present. Analysts foresee a heightened competitive intensity in the southern region with two major companies acquiring assets and gaining market share. The consolidation efforts by the larger companies is expected to change the capacity share of the top five cement makers in the sector to 59% in FY25 from 54% a year ago.

Nod to Export 1K MT White

Non-basmati Rice to Namibia

Our Bureau

New Delhi: The govern-

ment has allowed the export

of 1,000 metric tonnes of

non-basmati white rice to

are

through National Coopera-

tive Exports Limited, said a

Directorate General of For-

White Rice under ITC (HS)

code 10063090 to Namibia is

permitted through National Cooperative Exports Limited (NCEL)," it said.

In July 2023, the govern-

ment had prohibited the ex-

port of non-basmati white

rice but had said exports

would be allowed on the ba-

sis of permission granted

to other countries to meet

their food security needs and based on requests from

In May this year, India per-

mitted export of 14,000 mil-

lion tonnes of non-basmati

white rice to Mauritius.

those countries.

eign Trade notifi-

cation. "Export

of 1,000 MTs of

Non-Basmati

Namibia.

Exports

Onion to Stay on Hot Plate for a Fortnight, say Traders

Jayashree Bhosale

Pune: Onion prices are expected to stay elevated at least for a fortnight as farmers are delaying sale of their harvest, expecting better prices as seen by a 50% drop in arrivals at the benchmark Lasalgaon market in Nashik, Arrival of the new crop from south India is likely to help soften onion prices from mid-August, say traders.

Onion arrivals at Lasalgaon this month till July 29 is 537,000 quintals against 1.076 million quintals in the year-ago period. The sharp drop reflects lower rabi output and withholding of fresh crop by farmers.

Onion prices may continue to remain in this range for at least 10/12 days. Ongoing government procurement, which may continue for another one or two weeks and less arrival in the market may hold prices firm," said Vikas Singh, a Maharashtra-based onion expor-

The Centre is procuring onions at market prices to create a buffer stock of 500,000 tonnes, which is also giving support to onion prices. "Prices may start going down by mid-August once the arrival of the new onion crop from south India begins," said Singh. Whole-



Govt Selling Tomatoes at ₹60 per kg in Delhi-NCR

New Delhi: The ministry of consumer affairs, through the National Cooperative Consumers' Federation of India Limited (NCCF), has initiated market intervention to stabilize the rise in retail prices of tomatoes provide relief to consumers from the rising tomato prices in New Delhi and NCR. The NCCF is procuring tomatoes from wholesale mandis and selling them at ₹60 per kilo in retail market. Union minister of consumer affairs Pralhad Joshi said the prices of tomatoes will cool down in the next seven to 10 days. The current retail prices of tomatoes range between Rs 100 to Rs 120 per kilogram in various markets, causing financial strain on consumers. -Our Bureau

sale prices of onions are currently in the range of ₹28-32/kg across various markets such as Delhi, Nashik, and Bengaluru.

Onion exporters told ET that exports have fallen to negligible quantities due to the $40\,\%$ export duty imposed by the Indian government and better supplies from rival suppliers like Pakistan. There is a slight decline of Rs 2-3/kg in wholesale rates in the last few days as rains have adversely affected quality of onions in transit, while demand has declined in north India due to start of the holy month of Shravana, when onion consumption traditionally falls. "If the rainfall does not affect the crop that would be harvested in south India after mid-August, we may see prices rule in the present range," said onion trader Manoj Jain from Lasalgaon.

Debt Recovery Cases Seen Weighing Heavy on Banks

Over 2 L cases pending with DRTs; resolution may take up to 7 years

Shilpy Sinha

Mumbai: Banks are dealing with a massive backlog in debt recovery cases, which will take seven years to clear at the current pace. Over 2 lakh cases are pending in Debt Recovery Tribunals (DRTs), which currently handles about 30.000-40.000 cases annually. This means the existing pace is insufficient to clear the backlog, which could take seven years to resolve. experts say.

In the last five years, from 2017 to 2022, DRTs managed to dispose of 1.45 lakh cases. To address this issue, the government has announced plans in the latest budget to increase the capacity of both DRTs and National Company Law Tribunals (NCLTs), which will look to strengthen the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) and improve the efficiency of debt recovery processes. "The importance of DRTs is highlighted by the fact that they have recovered significantly more funds than the IBC in the past five years, said Hari Hara Mishra CEO ARC Association. "DRTs have managed to recover Rs 16 lakh crore, while the IBC has recovered Rs8lakh crore. This shows that DRTs are crucial

Dealing with Debt 39 Debt Cases DRTs Recovery **Tribunals** dispose of in India from 2017 to 2022 **2L+** Cases ₹16 L cr pending with DRTs DRTs recover **30,000** Cases in past DRTs can 5 years handle annually

for bank recovery efforts. The government has recognized this and is focusing on increasing the number of DRTs and Debt Recovery Appellate Tribunals (DRATs) to handle the growing number of

Currently, there are $39\,\mathrm{DRTs}$ in India and 5 DRATs, but they are overwhelmed by the influx of cases. Each year, about 60,000 new cases are filed, but only 30,000-40,000 cases are resolved. The IBC has also been effective in resolving cases, having resolved over 1,000 companies and recovered

Rs 3.3 lakh crore for creditors. In what is the cherry on top, around 28,000 cases involving more than Rs 10 lakh crore have been settled before reaching formal admission

under IBC procedures. While there have been reforms to strengthen the tribunal system and speed up insolvency resolutions, despite these efforts, recovery from DRTs has been lagging compared to other mechanisms like the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, where banks can enforce security without court intervention. Data from the Reserve Bank of India (RBI) shows that in some years between 2018 and 2021, recovery rates were as low as 4%, while recovery under IBC

The government has been urging banks to expedite the recovery of bad loans. Recently, bank chiefs have been instructed to personally monitor the top 20 accounts to ensure faster resolution. In March 2016, the non-perform ing assets (NPAs) of banks had risen to 14.5%, prompting the government to implement several measures, including amending recovery laws and enacting the IBC.

has been 32%.

Vivo to Expand India Ops, Raise Exports By Going Local

Our Bureau

New Delhi: Chinese smartphone major Vivo is now working with over 30 local component suppliers for its smartphones to shore up the local component ecosystem and enable exports, the company

Vivo will be moving to a new manufacturing facility in Noida later this year and start sourcing components such as stabilisation modules for cameras.

OLED displays, memory modules and more to increase value addition as part of its next phase of expansion. Vivo, which completed a decade of ope-

rations in India and has invested ₹3,500 crore so far, said it has exported ₹300 crore worth of mobile phones out of India in 2023, scaling up from ₹90 crore in 2022.

We have nurtured partnerships with around 30+ suppliers operating in India, creating direct and indirect employ ment for over 4,000 Indians. Together, we

uphold stringent quality standards and continuously enhance our capabilities to deliver world-class products," the Chinese handset brand said in a report rele-

ased Tuesday. It added that it plans to source highervalue components locally in its next phase of expansion.

Vivo said 100% of its motherboards are assembled here along with packaging materials, while 97% of its chargers are sourced from Salcomp, which also supplies chargers to Apple.

ADITYA VISION LIMITED

CIN - L32109BR1999PLC008783

Reg. Office: Aditya House, M-20, Road No. 26, S. K. Nagar, Patna - 800001, Bihar

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2024

(All Figures in Crores INR except EPS)

	Particulars		Year ended		
	railiculais	30.06.2024	31.03.2024	30.06.2023	31.03.2024
1.	Total Income from operations	890.46	377.46	642.60	1749.81
Net Profit /Loss for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit /Loss for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)		71.82	16.02	49.33	106.67
		71.82	16.02	49.33	106.67
4.	Net Profit /Loss for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	53.08	7.85	37.42	77.07
5.	Total Comprehensive Income (after tax)	53.08	7.85	37.42	77.07
6.	Equity Share Capital (face value of Rs.10/- each)	12.86	12.81	12.03	12.81
7.	Earning per share (in Rs.)				
	(a) Basic	41.38	6.18	31.11	63.72
	(b) Diluted	41.07	5.64	31.11	63.18

Notes to Standalone Financial Results:

- 1. The above financial results for the quarter ended June 30, 2024 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on Monday, July 29, 2024.
- 2. The Financial Results have been reviewed by the Auditors appointed for this purpose as required under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements).
- These results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 (IND AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act 2013 as amended and other recognized accounting practices and policies to the extent possible.
- The Company opened 5 new retail showrooms in this quarter taking its total store count 150 at the end
- The Company's business activity falls within a single primary business segment of Retail Business of electronic products such as Consumer Electronics, home appliances, mobility and IT products. As such reporting is done on a single segment basis.
- Sale of Company's products are seasonal in nature and hence it may not be comparable sequentially. .
- The financial results of the company are also available on stock exchange website www.bseindia.com and on the company website www.adityavision.in.

Aditya Vision Limited

Place : Patna Date: 29.07.2024

Sd/-Akanksha Arya (Company Secretary)



Extract from the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter Ended 30 th June 2024 (₹ in crore otherwise state								
			Standalone			Consolidated		
SI.	Particulars	Quarter Ended		Financial year Ended	Quarte	r Ended	Financial year Ended	
No.		30 th June 2024	30 th June 2023	31 st March 2024	30 th June 2024	30 th June 2023	31 st March 2024	
			Unaudited		Unaudited		Audited	
1.	Total Income from Operations	33,691.63	32,227.47	1,30,638.11	34,821.89	32,848.78	1,33,499.54	
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	3,641.62	1,888.71	11,554.56	4,113.82	2,282.51	12,595.01	
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3,641.62	1,888.71	11,554.56	4,113.82	2,282.51	12,595.01	
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,723.98	1,412.00	8,836.48	3,183.35	1,792.99	9,902.81	
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	3,005.54	1,798.10	12,142.03	3,428.76	1,978.33	13,041.73	
6.	Paid up Equity Share Capital (Face value of ₹ 10 each)	6,575.10	6,575.10	6,575.10	6,575.10	6,575.10	6,575.10	
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserves)	-	-	49,555.98	-	-	58,302.34	
8.	Securities Premium Account	-	-	-				
9.	Net worth	58,872.67	52,281.15	56,131.08				
10.	Outstanding Debt	16,564.75	17,096.31	16,413.08				
11.	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-				
12.	Debt Equity Ratio (in times)	0.27	0.23	0.29				
13.	Earnings per share (in ₹ (Face Value of ₹ 10 each) (for continuing and discontinued operations)							
	a) Basic	4.14	2.15	13.44	4.84	2.73	15.06	
	b) Diluted	4.14	2.15	13.44	4.84	2.73	15.06	
	(EPS for the Quarter not annualised)							
14.	Capital Redemption Reserve	126.74	126.74	126.74				
15.	Debt Service Coverage Ratio (in times)	3.69	2.57	3.31				
16.	Interest Service Coverage Ratio (in times)	14.13	8.94	12.97				
lotes:								

The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter ended 30th June 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and Regulation 52 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results are available on the Stock Exchanges website (www.nseindia.com, www.bseindia.com) and Company's website

The above results are in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013, read with the relevant rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India.

 For Other Line items referred in Regulation 52(4) SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements, Regulations, 2015 pertinent disclosures have been made to the Stock Exchanges website (www.nseindia.com, www.bseindia.com) and Company's website (www.gailonline.com). 4. Figures for the previous periods have been regrouped, wherever necessary, to conform to the current

For GAIL (India) Limited

(R K Jain) Director (Finance) and CFC (DIN: 08788595

(CIN: L40200DL1984GOI018976) Date: 30th July 2024

शैली से थी जॉर्ज बर्नार्ड शॉकी पहचान: डॉ. झा पीएमश्री योजना में शामिल होंगे बिहार के 1,746 स्कूल

कि आयरलैंड में जन्मे और लंदन को

बर्नार्ड शॉ परे विश्व में उच्चतम कोटि

के विचारक और राजनेता के रूप में

पटना। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ न केवल अपनी साहित्यिक कृतियों के लिए अपना कार्यक्षेत्र बनाने बाले जॉर्ज प्रेरणास्त्रोत रहे हैं. बल्कि उनके

विचार बिजनेस मैनेजमेंट में भी शोध का विषय रहा है। बेबाकी से अपनी बातों को रखने और कटाक्ष की अद्भुत शैली के लिए प्रसिद्ध जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक सफल

एक महान वक्ता भी थे। ये बातें जाने-माने लेखक एवं ब्रिटिश लिंग्वा के प्रबंध निदेशक डॉ. बीरबल झा ने कहीं। वे मंगलवार को यहां ब्रिटिश

नाटककार ही नहीं, वरन

लिंग्वा के प्रांगण में 'लेट्स लर्न फ्रॉम नोबेल लॉरिएट जॉर्ज बर्नार्ड शॉ विषयक सेमिनार में बोल रहे थे।डॉ. झा ने कहा कि हमें जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के लेखन और जीवन से बिजनेस

अंगीभृत महाविद्यालयों में वर्तमान शैक्षिक सत्र 2024-

25 में बीबीए, बीसीए एवं बीएमएस सहित व्यावसायिक

राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने दी है। शिक्षा विभाग की

शर्त के मुताबिक बीबीए, बीसीए एवं बीएमएस में

नामांकन में एआईसीटीई से मान्यता एवं उसके द्वारा

निर्धारित शर्तों का अक्षरश: पालन होगा। महाविद्यालयों

ही सीटों एवं उन्हीं विषयों में नामांकन लिये जायेंगे, बशर्ते

उन पाठ्यक्रमों का ऑर्डिनेंश एवं रेगुलेशन राज्यपाल

सचिवालय से निर्गत हो।शर्त के मुताबिक ऑर्डिनेंश एवं

जितनी सीटों की अधिसीमा के

लिए सहमति दी गयी थी, उतनी

ए. एन. कॉलेज के अंग्रेजी के पूर्व प्रोफेसर शैलेन्द्र मिश्रा ने कहा कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ 19वीं और 20वीं जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए।उनके) शताब्दी के महानतम नाटककार थे। अवार्ड - 2024 से सम्मानित किए

हागा व्यावसाायक पाठ्यक्रमा में दाखिला

प्रोफेसर मिश्रा ने कहा कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने तत्कालीन परंपराओं से संबंधित विषयों पर लिखा। प्रो. शैलेन्द्र मिश्रा ने कहा कि बहुत लोगों

को यह जानकर आश्चर्य होगा की बर्नार्ड शॉ ने वेश्यावृति को जायज ठहराया था। बर्नार्ड शॉ का 'हीरो ' नवयुवक या बहुत सुन्दर नहीं होता था।ऐसे कर्ड सामाजिक रूढ़िवादी धारणा को बर्नार्ड शॉ ने तोडा। पत्रकार आशीष कोइलखिया ने कहा कि

से सीखने लायक बहुत चीजें हैं। सेमिनार में जाने-माने पत्रकार व ऑक्सफ़ोर्ड से पढ़े डॉ. सुमित पॉल को नोबेल लॉरिएट जॉर्ज बर्नार्ड शॉ उन्होंने अपने नाटकों के लिए जानेकी घोषणा की गयी।

पटना (आशिप्र)। बिहार के सरकारी स्कूल भी प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएमश्री) योजना में शामिल होंगे।राज्य के तकरीबन 1,746 स्कुलों को पीएमश्री योजना में शामिल कराने की शिक्षा विभाग की तैयारी है। आधारभूत संरचना के विकास के लिए प्रत्येक पीएमश्री स्कूल को केंद्र से दो करोड रुपये की वित्तीय सहायता का प्रविधान है। इसके पहले जब राज्य में महागठबंधन की सरकार थी और शिक्षा मंत्री की कुर्सी राष्ट्रीय जनता दल के पास थी, तो पीएमश्री योजना को लेकर शिक्षा विभाग ने अपनी दिलचस्पी नहीं दिखायी। राजग की सरकार बनने के बाद पीएमश्री योजना में अपने स्कूलों को शामिल कराने के प्रति

खासा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के जीवन चालु वित्तीय वर्ष में वित्तीय वर्ष में 3007 करोड रुपये के आवंटन की सैद्धांतिक सहमति भी केंद्र ने दी है। राज्य के सरकारी स्कुलों को पीएमश्री योजना में शामिल कराने को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी कर चुके हैं। इस योजना में अगले साल तक राज्य के चार हजार स्कूलों को शामल कराने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए हर जिले में स्कूलों के चयन किये जा रहे हैं। चयनित स्कलों पर शिक्षा विभाग की महर लगने के बाद उसे पीएमश्री योजना में शामिल करने की अनशंसा केंद्र से की जायेगी। प्रत्येक प्रखंड से दो स्कलों का चयन होगा। अनशंसा मिलने के बाद केंद्र सकार की कमेटी बैठगी और राज्य का कोटा तय करेगी । पीएमश्री योजना में शामिल होने वाले सभी स्कुल 'मॉडल' के रूप में विकसित किये जायेंगे।स्मार्ट क्लास, कौशल विकास कर्मशाला, विज्ञान प्रयोगशाला, कप्यूटर प्रयोगशाला, इंटरनेट सुविधा, पुस्तकालय, खेल का मदान एवं जिम सहित अन्य संसाधन स्कुलों को उपलब्ध होंगे।

शिक्षा विभाग

पटना (आशिप्र)। राज्य के विश्वविद्यालयों के के अनुरूप सीटों में कमी करेंगे अथवा नामांकन नहीं लेने की काररवाई सुनिश्चित करेंगे।शर्तों में यह भी शामिल है कि नामांकन के पूर्व नामांकित हो रहे छात्रों के लिए राज्य पाठ्यक्रमों में नामांकन प्रारंभ करने की सशर्त अनुमित 🛾 सरकार के अद्यतन आरक्षण पॉलिसी का पालन करते हुए नामांकन हेतु पारदर्शिता के साथ छात्रों की मेधा सूची तैयार करेंगे तथा उसे महाविद्यालय-विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करेंगे।ये निर्देश उच्च शिक्षा निदेशक रेखा कुमारी द्वारा राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के में वर्ष 2023-24 में जिन व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए) कुलसचिवों को दिये गये हैं । विश्वविद्यालयों को यह निर्देश भी दिया गया है अंगीभूत संचालित हो रहे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए आगामी पीएमश्री योजना में शामिल होने वाले स्कूलों शैक्षणिक सत्र 2025-26 से सीट निर्धारण के संदर्भ में के लिए यह जरूरी है कि उनके भवन बेहतर अपनी अनुशंसा सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित कर पटना स्थिति में हों। परिसर स्वच्छ हो। बैरियर फी रेगुलेशन के अनुरूप जो महाविद्यालय वांछित आधारभृत 🏻 उच्च न्यायालय के न्यायादेश के द्वारा निर्धारित समय-एक्सेस रैंप, छात्रों व छात्राओं के लिए कम से कम एक-एक शौचालय हो। तय मानक के

अनुरुप शिक्षक-छात्र अनुपात हों । इसके साथ

ही और भी कई शर्तें हैं।

प ट

कार्यक्रम

आयोजन

(आससे)। इनर

व्हील क्लब ऑफ

मौर्या ने इंस्टॉलेशन

सम्मान समारोह का

अपनी सदस्यों को

नवनिवर्गित

अध्यक्षा के रूप में

रीमा रोनक बनी।

जबकि, उपाध्यक्ष के

रूप में कीर्ति कुमारी,

सचिव मनीषा रानी,

कोषाध्यक्ष उपमा

उमिल, आईएसओ

मीडिया प्रभारी रंजना

गप्ता पदभार ग्रहण

की। इस मौके पर

प्रियांका कुमार ने दो

व्हील चेयर और 26

छतरी दी।

गुप्ता एवं

किया।

पुरस्कार

क्लब

उषा

सम्मानित

एवं

ADITYA VISION LIMITED

CIN - L32109BR1999PLC008783

Reg. Office: Aditya House, M-20, Road No. 26, S. K. Nagar, Patna - 800001, Bihar

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2024

			(All Figures in Crores INR except EPS)			
	Particulars		Year ended			
	Faiticulais	30.06.2024	31.03.2024	30.06.2023	31.03.2024	
1.	Total Income from operations	890.46	377.46	642.60	1749.81	
2.	Net Profit /Loss for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	71.82	16.02	49.33	106.67	
3.	Net Profit /Loss for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	71.82	16.02	49.33	106.67	
4.	Net Profit /Loss for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	53.08	7.85	37.42	77.07	
5.	Total Comprehensive Income (after tax)	53.08	7.85	37.42	77.07	
6.	Equity Share Capital (face value of Rs.10/- each)	12.86	12.81	12.03	12.81	
7.	Earning per share (in Rs.)					
	(a) Basic	41.38	6.18	31.11	63.72	
	(b) Diluted	41.07	5.64	31.11	63.18	

Notes to Standalone Financial Results:

- The above financial results for the quarter ended June 30, 2024 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on Monday, July 29,
- The Financial Results have been reviewed by the Auditors appointed for this purpose as required under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements).
- 2015 (IND AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act 2013 as amended and other recognized accounting practices and policies to the extent possible. The Company opened 5 new retail showrooms in this quarter taking its total store count 150 at the end of this

These results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules

- The Company's business activity falls within a single primary business segment of Retail Business of electronic
- products such as Consumer Electronics, home appliances, mobility and IT products. As such reporting is done
- Sale of Company's products are seasonal in nature and hence it may not be comparable sequentially.
- The financial results of the company are also available on stock exchange website www.bseindia.com and on the company website www.adityavision.in.

For and On behalf of Board of Directors of **Aditya Vision Limited**

Place: Patna Date: 29.07.2024

Sd/-Akanksha Arya (Company Secretary)

ट्रक

UK07CA-0708

संरचना, प्रयोगशाला की सुविधा, शैक्षणिक कर्मी आदि सारणी के सदृश्य विभाग को उपलब्ध करायें, ताकि सीटों के मानक को पूरा नहीं करते हों, तो तदनुरूप अनुमान्यता के निर्धारण के साथ-साथ संचालन की स्थायी अनुमति दी जा सके। कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

उत्तर कोयल नहर प्रमण्डल, औरगाबाद E-Mail Id:- eenkcd1aurangabad@gmail.com

अंतर्गत पाठ्यक्रम संचालन के शिक्षा विभाग का विश्वविद्यालया का हिदायत

निलामी सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मुख्य अभियन्ता, सिंचाई

सृजन, जल संसाधन विभाग, औरंगाबाद का पत्रांक 1073, दिनांक—25.06.2024 के निहित निदेश एवं बिहार वित्त नियमावली के नियम 143(i) (ख) के आलोक में उत्तर कोयल कॉलोनी शिविर अन्तर्गत जर्जर अवस्था में सी टाईप,डी टाईप,ई टाईप,एफ टाईप स्थायी आवास एवं गोदाम के ध्वस्त करने एवं तदोपरान्त अवशेषों की निलामी किया जाना है। जिसकी विस्तृत विवरणी निम्न प्रकार है

क्रमांक	प्रमंडलाधीन अवस्थित आवास का	ग्रुप	निलामी की न्यूनतम	सुरक्षित	निलामी की			
क्रमाक	नाम एवं संख्या	संख्या	बोली (रूपयें में)	जमा राशि	तिथि			
	सी0–02 टाईप स्थायी आवास एक							
01	अदद एवं डी०–4 टाईप स्थायी	01	38100.00	3900.00	16.08.2024			
	आवास एक अदद							
	ई0 टाईप स्थायी आवास सं0 E23से			0700.00	10.00.0001			
02	E26 एवं E51से E52 , छः अदद	02	66900.00	6700.00	16.08.2024			
-00	ई0 टाईप स्थायी आवास सं0 E27से	02	43100.00	4400.00	16.08.2024			
03	E30 चार अदद	03	43100.00	4400.00	10.00.2024			
04	एफ0 टाईप स्थायी आवास सं0 F49	04	298600.00	29900.00	16.08.2024			
04	से F58 एवं F61से F80 तीस अदद	04			10.00.2024			
05	गोदाम दो अदद	08	53100.00	5400.00	16.08.2024			
	इन अवशेषों का मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर सामूहिक निलामी ''जैसे है उसी							
l	\\	· ·	, "	\	\·			

स्वरूप में'' के आधार पर इस कार्य हेतु दिनांक—16.08.2024 को 03:00 बजे अपराह्नन में उत्तर कोयल नहर प्रमण्डल, औरंगाबाद के कार्यालय में की जाएगी। निलामी की शर्ते :-

01. इच्छुक फर्म / आवेदक दिनांक—10.08.2024 से दिनांक—14.08.2024 तक कार्यालय अवधि में (रिववार एवं अन्य सरकारी छुट्टियों को छोडकर) सूचना पट्ट पर प्रदर्शित अनुपयोगी एवं ध्वस्त करने योग्य भवनों की सूची देख सकते है। सभी अवशेष जहाँ भी है, जो भी हैं, जैसे भी हैं के आधार पर निलामी की प्रक्रिया सम्पन्न की

निलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति / फर्म को कॉलम संख्या-05 में अंकित सुरक्षित जमा 03. राशि / अग्रधन / प्रतिभूति की राशि दिनांक—14.08.2024 के अपराह्रन 05:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यपालक अभियन्ता, उत्तर कोयल नहर प्रमण्डल, औरंगाबाद के कार्यालय में आवेदन पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। अग्रधन की राशि, डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कार्यपालक अभियन्ता, उत्तर कोयल नहर प्रमण्डल, औरंगाबाद (Executive Engineer, North Koel Canal Division, Aurangabad-Payble at State Bank Of India, Parisad Bazar, Aurangabad) के नाम से भुगतेय हो जमा करने के बाद हीं निलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। निर्धारित तिथि के बाद किसी भी स्थिति में आवेदन एवं सुरक्षित जमा राशि स्वीकार नहीं किया जाएगा।

04. निलामी के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय से कार्यालय अवधि में या दूरभाष संख्या—7463889720,9771537770 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

विस्तृत जानकारी state.bihar.gov.in/prdbihar से प्राप्त की जा सकती है। कार्यपालक अभियन्ता PR-004967 (WRD) 2024-25 उत्तर कोयल नहर प्रमण्डल, औरंगाबाद नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एवं फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड Chola वालामङलम इन्वस्टनट एवं वजाउँ हैं। वजाउँ कारणेरेट ऑफिसः चोला क्रेस्ट, सुपर बी, सी54 एवं सी55, 4 थिरु वि का एण्डस्ट्रियल इस्टेट, गुइन्डी, चेनई-600 032, तामिलन

(ई0 अजय कमार)

सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 (''दी एक्ट'') एवं सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 (''दी रुल्स'') की वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गङ्गन के प्रावधानों के अधीर अधोहस्ताक्षरकर्ता, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एवं फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड (निरापद) लेनदार का अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी होने रे कारण एवं अनुभाग 13(12) सहपाङ्गित नियमावली के नियम 3 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम के अनुभाग 13(2) के अधीन निम्नलिखित ऋणी (ऋणियों) को इस सूचना की प्राप्ति की दिनांक से 60 दिनों के भीतर क्रमशः सूचना (सूचनाओं) में वर्णित राशि के पुनर्भुगतान हेत् 3 मांग सूचना (सूचनाएं) जारी की गई थी। अधोहस्ताक्षरकर्ता तर्कसंगत रूप से विश्वास करता है कि ऋणी (ऋणियों) मांग सूचना / सूचनाओं की सेव को डाला है / हैं, इसलिए, सूचना की सेवा को प्रत्ययोजन एवं नियमानुसार प्रकाशित द्वारा प्रभावित किया गया है। मांग सूचना (सूचनाओं) की अंतर्वस्तु

あ . せ.	ऋणी / ऋणियों एवं सहऋणी / ऋणियों का नाम एवं पता	ऋण राशि	मांग सूचना दिनांक एवं बकाया राशि	निरापद सम्पत्ति / परिसम्पत्ति का विवरण				
1	त्रहण खाता (सं.): LAP3AUR000076927 1. श्री. / श्रीमती अनिल कुमार गुता, गोपाल प्रसाद के पुत्र 2. श्री. / श्रीमती कुमुम कुमारी दोनो निवासी है: दुर्गा चौक ओबरा, औरंगाबाद, बिहार, दुर्गा मंदिर, ओबरा, औरंगाबाद, बिहार-824 124: यहाँ भी:- खाता नंबर 295, खेसरा नंबर 577, मौजा-शाहपुर, वार्ड नंबर 14, भोला सॉ मंदिर, परगना: थाना- औरंगाबाद, थाना नंबर 566, अंचल-औरंगाबाद, बिहार-824 101	35,00,0	दि. 23.07.2024 को रु. 36,83,458/- (रु. छत्तीस लाख त्रियासी हजार चार	खाता नंबर 295, खेसरा नंबर 577, मौजा-शाहपुर, वार्ड नंबर 14, भोला सॉ मंदिर के पास, परगना : एन. ए., थाना- औरंगाबाद, थाना नंबर 566, अंचल- औरंगाबाद, उप-रजिस्ट्री : एन. ए., जिला : औरंगाबाद, राज्य : बिहार-824 101.				
ब्य भुग	ऋणी (ऋणियों) को ऐतद् द्वारा मांग सूचना (सूचनाओं) की पालना की सलाह दी जाती है एवं इस प्रकाशन की दिनांक से 60 दिवसों के भीतर मय लाग ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, वापस किए गए प्रभारों, लागत एवं भुगतान की वसूली की दिनांक तक समस्त व्ययों जो यहां उपरोक्त वर्णित मांगी गई राशि क भुगतान कर देवें। ऋणी (ऋणियों) यह नोट कर लेवें कि चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड एक निरापद लेनेदार है एवं ऋणी (ऋणियों							
द्वारा प्राप्त की गई ऋण सुविधा ऋणी (ऋणियों) द्वारा रहन रखी गई अचल सम्पत्ति / परिसम्पत्तियां है जो निरापद सम्पत्ति (सम्पत्तियों) के विरुद्ध दिया गय निरापद कर्ज है। ऋणी (ऋणियों) निर्धारित समय के भीतर पूर्ण रुपेण उनके दायित्वों / देनदारियों का निर्वहन के विफल होने की स्थिति में निरापद लेनदा निरापद सम्पत्ति (सम्पत्तियों) सहित परन्तु अधिनयिम एवं इसके अन्तर्गत नियमों एवं भृगतान की वसली के अधीन इसकी बिक्री द्वारा हस्तांतरित में सीमित								
या नि	अन्य कोई उपलब्ध निदान प्रेरक द्वारा अधिनियम के अनुभाग 13 (4) के अधीन रापद लेनदार बिक्री के अधिकार को लागू करने या निरापद (सम्पतियों) के स्थानां कि पापद है। निरापद लेनदार श्रेष बकाया राशि की तसली में काननी कार्यवादी	, प्रदत्त तरण	न अधिकारों के प्रयोग आगामी बिक्री करने न	में लाए जाने का सर्वाधिकार सुरक्षित है से पूर्व संलग्न एवं / या सील करने का र्भ				

की वसूली में सम्पत्ति अपर्याप्त पाई जाती है। इस निदान के अतिरिक्त एवं अन्य कोई कानून के अधीन निरापद लेनदार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है ऋणी (ऋणियों) का ध्यान, अधिनियम के अनुभाग 13 (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि वे उपलब्ध समय में निरापद सम्पत्तियों को छुड़वा लेवें ए तदन्तर अधिनियम के अनुभाग **13 (13)** जिसके तहत ऋणी (ऋणियों) को निरापद सम्पत्ति (सम्पत्तियों) के साथ कोई व्यवहार या निपटाए जाने या बिर्द्र द्वारा स्थानान्तरित किए जाने, पट्टे पर देना या अन्यथा (व्यवसाय के अन्य कोई साधारण अवस्था में) बगैर पूर्व लिखित सूचना एवं गैर अनुपालन नही करे यदि ऐसा किया जाता है तो उपर्युक्त अधिनियम के अनुभाग 29 के अधीन एक दंडनीय अपराध है। अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास मांग सूचना की प्रतिलिपि हैं एवं ऋणी (ऋणियों) यदि वे चाहें तो कार्यालय के नियत समय एवं कार्यदिवस में इस सूचना की प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते है।

कृते चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एवं फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

प्राधिकृत अधिकार्र

बिहार 🎎 सरकार रीमा रोनक बर्नी इनर न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा कील क्लब ऑफ मौर्या की अध्यक्ष आवश्यक सूचना एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बिहार राज्य में पूर्ण रूप से शराब बन्दी लागू होने के उपरान्त

लिस विभाग / उत्पाद विभाग द्वारा जाँच / छापेमारी के क्रम में अवैध रूप से शराब को ढोने में प्रयुक्त वाहन को जब्त . केया गया है। विदित हो कि सरकार के अपर मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक—3671 दिनांक—31.05.2023 के आलोक में बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम (यथा संशोधित) 2022 के नियम 12(क) के तहत शास्ति, जो नवीनतम बीमाकृत नूल्य का 10 प्रतिशत से कम और 5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) से अधिक नहीं होगा, के भुगतान करने पर वाहनों की . बोड़ने का प्रावधान किया गया है। साथ ही विभाग के आदेशानुसार जब्त वाहनों के रख[े]रखाव पर हो रहे व्यय हेतु गिठासीन पदाधिकारी द्वारा अधिरोपित राशि का 3 प्रतिशत अतिरिक्त राशि भी वाहन स्वामी से वसूलनीय है। उक्त प्रावधान के अन्तर्गत वाहन स्वामी को प्रपत्र—iv में आवेदन दाखिल करने हेत निबंधित / स्पीड पोस्ट डाक रें

ाना निर्गत की गई थी. जो वापस प्राप्त हआ है। साथ ही कुछ जब्त वाहनों के स्वामी का नाम / पता उपलब्ध नहीं हो पा स्थानीय होटल में देनों क iv में हो मुख्य अतिथि के रूप में प्रियांका कुमार एव

स्थानीय होटल में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में	रहा है। अतएव वाहन स्वामी को उक्त प्रावधान के अन्तर्गत एक अवसर प्रदान करते हुये उक्त के आलेक में सूचित कि जाता है कि निम्निलिखत वाहन के स्वामी चोहें तो दिनांक—12.08.2024 तक अथवा सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दि के अन्दर स्वयं अथवा अपने अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर जन्न वाहन को मुक्त कराने हेतु प्रपत्र—iV प्रशनगत वाहन से संबंधित मूल निबंधन, नवीनतम बीमा कागजात, जिसमें इन्स्योरेंस की राशि स्पष्ट रूप से अंकित तथा स्वयं से संबंधित मूल पहचान पत्र / आधार कार्ड के साथ वाहन विमुक्ति हेतु जिला दण्डाधिकारी, दरमंगा न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र समर्पित कर सकते हैं। निर्धारित तिथि तक प्रतिक्रिया या पक्ष अप्राप्त रहने की स्थित							
डिस्ट्रिक सेक्रेटरी प्रियांका कुमार एवं	वाहन राज्यसात् करने की अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।							
डिस्ट्रिक्ट एडिटर विभा चरण पहाड़ी ने दीप प्रज्वलित कर	화0	समाहर्त्ता न्यायालय का वाद सं0	थाना का नाम एवं कांड सं0	वाहन का प्रकार एवं रजि0 नं0	वाहन स्वामी का नाम/पता			
किया। इस मौके पर क्लब की अध्यक्षा रेनू वार्ष्णिय ने अपने कार्यकाल में किये	1	25 / 2024	बहादुरपुर थाना कांड सं0–315/22	मोटरसाईकिल HR26DU-1725	रवि शंकर कुमार, पिता—सोचित राय, पता—प्लॉट नं0—278 प्रथम तल, कमरा नं0—18 शिव मंदिर सरकारी विद्यालय वे नजदीक, सरहौल सेक्टर नं0—18, गुड़गाँव, पिन नं0—122015			
गये सामाजिक कार्यो को लेकर			बहादुरपुर (फेकला	المالية المالية	संगीता एलेक्सेन्डर, पता–ROSY KUTIR, 194-A, ARJUN			

NAGAR, NEAR POLICE ओ० पी०) थाना वैगनार कार 35 / 2024 कांड DL9CD-8451 STATION सं0−163 / 23 S.J.ENCLAVE, N.DELHI राज्य–दिल्ली कुन्दन कुमार पासवान, पिता–बिरजु हायाघाट थाना ई—रिक्शा पासवान, पता—वार्ड नं0—02 बरहेत 42 / 2024 थाना-बहादुरपुर, जिला-दरभंगा, पिन BR07ER-1868 सं0-171 / 23 कोड-846001 रंजन देवी, पति–दीपक साह, सदर (मब्बी ओ०पी०) थाना ग्राम–बहादुरपुर, रामपुर मदनपुर, 53 / 2024 BR07AM-4999 पोस्ट+थाना-लहेरियासराय, सं0-776 / 23 जिला–दरभंग बीरू कुमार, पिता–दिनेश महतो, ग्राम– दिलावरपुर, थाना–बहादुरपुर, बहादुरपुर थाना अपाची मोटरसाईकिल जिला-दरभंगा, राहुल अग्रवाल, 54 / 2024 BR06BA-1127 पिता-भरत कुमार अग्रवाल, सं0-375 / 23 मोहल्ला-कटकी बाजार, पोस्ट-लालबाग थाना–नगर, जिला–दरभंगा विश्वविद्यालय 56/2023 थाना कांड BR07D-7122 सं0-452 / 22 परमानन्द कुमार यादव, पिता–राजाराम यादव, पता-रूम नं0-8, प्लॉट-24 स्कॉर्पियो उत्पाद वाद कांड OCC MALWANI, GATE NO 73 / 2024 सं0-1323 / 23 MH02AV-4553 05 MALAD WEST KHARODI, जिला–मुम्बई उपनगरीय,

सदर (सोनकी नवीन कुमार वर्मा, पिता–एस0 एस0 वर्मा, XYLO कार ओ०पी०) थाना 82 / 2024 पता-3387 गली नं0-246 हंसा पुरी, त्रि कांड DL4CNB-3633 नगर, दिल्ली, पिन कोड-110035 बोलेरो चेचिस जाले थाना कांड ਜਂo−MA1XA2GHKB5C 83 / 2024 सं0-135 / 23 प्रमोद कुमार महतो, पिता–सत्यनाराय महतो, पता-A- 294 PKT 5 GALI स्वीफ्ट डिजायर कार केवटी थाना कांड 85 / 2024 NO-6 SONIA VIHAR. सं0-283 / 23 DL5CH-3826 Fkkuk&NORTH EAST, NEW **DELHI, PIN-110094** 1. मोटरसाईकिल रजि0 रश्मी एवं अन्य, पिता–शिव कुमार नंo- BR07BA-2837 ठाकुर, सा0–मिथिला नगर छोटकी एकमी, वार्ड नं0—3 थाना—बहादुरपुर,

2. स्पेलेन्डर मोटरसाईकिल BR07AW-6039 3. एक्टीवा स्कूटी रजि0 उत्पाद वाद कांड ਜਂo-BR07AK-4846 सं0-1417 / 23 4. हीरो होण्डा मोटरसाईकिल रजि0 नं0-अंकित नहीं, इंजन सं0-अस्पष्ट, चेचिस नं0-04E27F09604 टैक्टर, इंजन सदर(भालपर्ट

87 / 2024

88 / 2024

94 / 2024

कांड

सं0-239 / 23

ओ० पी०) थाना नं0-S324C86926, कांड चेचिस सं0-751 / 23 नंo-L108C086926 चेचिस नंn-MAITA2HAN92D2 सं0-264 / 23 ईंजन नं0-HA94C13 नगर (कोतवाली ओ०पी०) थाना पता-डी0-107 प्रताप गार्डेन, उत्तमनगर DL3CAK-9421

केवटी थाना कांड 97 / 2024

17

18

103 / 2024

124 / 2024

24

32

33

34

153 / 2024

बेनीपर कांड

सं0-154 / 24

उत्पाद वाद कांड

राज्य–महाराट्र, पिन कोड–400095

जिला–दरभंगा

जिला—समस्तीपः

4.अज्ञात

2.सोनी देवी, पति—बबन महतो,

सा0—जटमलपुर वार्ड नं0—10,

पोस्ट–हायाघाट, थाना–कल्याणपुर

थाना–बहादुरपुर, जिला–दरभंगा

शिवजी कुमार, पिता–कृष्ण पासवान

सा0–हरिपट्टीँ रोही टोल वार्ड नं0–09,

अज्ञात

अज्ञात

नई दिल्ली, पिन कोड-110059

पता—सेक्टर-2 बी० एम० सी० कॉलोनी सदर थाना कांड 98 / 2024 MH04CM-8414 सं0-699 / 23 स्कॉर्पियो रजि० नं०—अस्पष् उत्पाद वाद चेचिस नं0-अस्पष्ट, ईजन 102 / 2024 सं0-1404 / 23 नं0-अस्पष्ट

बहादुरपुर थाना

उत्पाद वाद

सं0-1424 / 24

थाना–जोगेश्वरी वेस्ट, जिला–मुम्बई उप नगरीय क्षेत्र, राज्य-महाराष्ट्र, पिन कोड—400102 अजमुल्लाह अंसारी, पिता–स्व0 अमानव हसैन, ग्राम-अमवा, उदयगढ,

पता–C/O- प्रवेज आलम, पता–एच0एन

तलीवाला, थाना– मरखमग्रान्ट,

जिला-देहरादुन, राज्य-उत्तराखंड, पिन

कोड-248140 स्थायी पता-हाउस नं0-

229 शांतिनगर, थाना–दुर्गापुर,

जिला-जयपुर, राज्य-राजस्थान

पिन-302018

ललन कुमार, पिता–रामबहादुर यादव,

आनन्दनगर, न्यू लिंक रोड,

थाना-छतरपुर मरवा, जिला-खुंटी,

HARDWAR.

UTTARAKHAND PIN

CHAMPARAN

अज्ञात

सं0-597 / 23 राज्य-झारखंड. पिन कोड-822113 विश्वविद्यालय मोटरसाईकिल 19 106 / 2024 थाना कांड अज्ञात BR7B-1605 सं0-54 / 23 संजय महतो, पिता–राजेन्द्र महतो, विश्वविद्यालय पता–लक्ष्मीसागर, सैदपुर, स्कूटी 20 108 / 2024 कांड BR07AL-2861 पोस्ट–लक्ष्मीसागर, थाना–विश्वविद्यालय सं0-248 / 22 जिला-दरभंगा, पिन कोड-846009 आर0 एस0 चौधरी. पिता–स्व0 राजेश्वर विश्वविद्यालय वैगनार कार चौधरी. पता-23 / 3 गीतांजली 21 109/2024 थाना कांड अपार्टमेन्ट, सेन्टल बैंक, ऑफिसर्स, MP04CC-1418 राज्य-मध्य प्रदेश

1.कार रजि0-

मारूती सजकी कार

JH01AK-1623

सिमरी काड BR06M-46/8 अज्ञात 117/2024 सं0-278 / 23 2. अज्ञात 2. DCM ट्रक BR01GA-0180 स्कॉर्पियो रजि० नं0–अस्पष्ट उत्पाद वाद चेचिस नं0-अस्पष्ट, ईजन 123 / 2024 अज्ञात सं0-10 / 24 नं0-अस्पष्ट MRS FATIMA W/O MEHMOOD, irk&367/1V स्कॉर्पियो रजि० नं०-RAMPUR ROORKEE, DIST-

UA08F-9870

CODE-249401 स्कॉर्पियो रजि० नं0-अंकित नहीं चेचिस नं0-उत्पाद वाद MA1TB2BL2C685 128 / 2024 अज्ञात सं0-146 / 24 (कुछ अंक घिसा हुआ) ईजन नंo- S64C215 मोटरसाईकिल नं0 दीपक कुमार, पिता–अशोक कुमार महतो 130 / 2024 बिरौल कांड BR06AE-8353 ग्राम+पोस्ट-मिठनपुरा शिव शंकर पथ मिठनपुरा, जिला-मुजफ्फरपुर

नं0–अंकित नहीं, चेचिस उत्पाद वाद नं0—अंकित नहीं, ईजन 131 / 2024 सं0-97/24 नं0–अंकित नहीं, लहेरियासराय 134 / 2024 थाना कांड अज्ञात BR1AH-2223 सं0-180 / 23 लहेरियासराय

(बेंता ओ० पी०) पिकअप 136 / 2024 अज्ञात थाना कांड BR25A-8133 सं0-456 / 22 B.R.P BANDHU S/O LATE -नगर (कोतवार्ल S.H NIRGUN PARSAD. मोटरसाईकिल ओ० पी०) थाना 138 / 2024 AT+PO-MADHOPUR VIA-कांड BR07F-4738 CHIRAIYA,EAST सं0-346 / 22

ग्राम-4MTN GHOSH LANE बहादुरपुर थाना 143 / 2024 कांड सं0–96/24 BR10M-3096 NATHNAGAR, BHAGALPUR पिन कोड-812004 बोलेरो पिकअप चेचिस नं0-MA1HZP2TAKE2G उत्पाद वाद कांड 146 / 2024 अज्ञात सं0-296 / 24 76205 इंजन नंo-TAE4G77276 मोटरसाईकिल चेचिस मब्बी थाना कांड नं0-06EACC02220 अज्ञात 148 / 2024 सं0-04 / 24 इंजन नं0-06EACM02322 मोटरसाईकिल चेचिस उत्पाद थाना नंo-MBLHA10EU इंजन

ਜਂo-MA3EDKD1S002 35 154 / 2024 अज्ञात सं0-214 / 23 इंजन नं0-K12MIN1003 जिला दण्डाधिकारी PR. No. 004959 (District) 2024-25

ਜਂo-HA10ELA

मारूति सुजुकी कार चेचिस

उक्त सूचना www.state.bihar.gov.in/prdbihar पर भी देखी जा सकती है। नशे से बनानी दूरी है, क्योंकि परिवार जरूरी है।